



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 18.01.2023

अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता, थाना शिवली पुलिस की कार्यवाही से 15-15 हजार रुपये के पुरुस्कार घोषित 02 नफर वाँछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

- पुलिस मुठभेड़ में अवैध कटान हेतु गौतस्करी करने वाले 02 नफर वाँछित अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद कानपुर देहात के थाना शिवली पर 15-15 हजार रुपये का इनाम था घोषित।
- अभियुक्तगणों के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 12 बोर तथा 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद श्री आशापाल सिंह के नेतृत्व में थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 15/16.01.2023 की रात्रि में मुखबिर खास की सूचना पर अवैध कटान के लिये ले जाये जा रहे 55 गोवंशीय पशु एक अदद कंटेनर, दो मोटरसाइकिल सहित तीन अभियुक्तों 1.जय सिंह पुत्र भूरा ठाकुर निवासी कलम का कुआं थाना विद्यानगर जनपद कोटा राजस्थान 2.दीपू लोधी पुत्र भंवर जीत निवासी ग्राम पंचम पुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात 3.रोहित पुत्र शिव कुमार लोधी निवासी ग्राम पंचम पुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार किया गया एवं अंधेरे का फायदा उठाकर 02 अभियुक्त 1. राजू पुत्र बिहारी उर्फ भूरा निवासी कलम का कुआं थाना विद्यानगर जनपद कोटा राजस्थान, 2. विजय सिंह पुत्र लख्खा जी निवासी ढाबा दे रामजी मण्डी कोटा ग्रामीण राजस्थान मौके से फरार हो गये थे। मुकदमा उपरोक्त में दोनों अभियुक्तगण नामजद वाँछित थे अभियुक्तगणों पर पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात द्वारा 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 17/18.01.2023 की रात्रि में मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दोनों अभियुक्तगणों को अंशिका पम्प वहद ग्राम बन्नापुरवा थाना शिवली से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त राजू सिंह पुत्र बिहारी उर्फ भूरा निवासी ग्राम कलम का कुआं तहसील लालपुर कोटा थाना रानपुर जिला कोटा प्रान्त राजस्थान के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ एवं दूसरे अभियुक्त

विजय सिंह पुत्र लख्खा जी निवासी ग्राम ढाबा दे तहसील रामजी मण्डी थाना मोडक जिला कोटा प्रान्त राजस्थान के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये हैं।

पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि साहब हम लोग जनपद कानपुर देहात व विभिन्न जगहों पर गौवंशों को अवैध तरीके से कटिंग के लिये ले जाते थे दिनांक 15/16 की रात्रि को हम लोग अपने साथियों के साथ गौवंश ले जा रहे थे तभी पुलिस ने पकड़ लिया था जिसमें हमारे 03 साथी मौके से पकड़े गये थे व हम लोग अंधेरे का फायदा लेकर भाग गये थे आज आप लोगों ने पकड़ लिया।

• दिनांक 15/16.01.2023 की रात्रि में ग्राम पंचम पुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात में अवैध कटान के लिये ले जाने के सम्बन्ध में थाना शिवली पर मु0अ0सं0-18/2023 धारा-3/5(क)/5(ख)/8 गोवंश वध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 207 MV एक्ट पंजीकृत है।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0सं0 24/2023 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 25/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 26/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. राजू सिंह पुत्र बिहारी उर्फ भूरा निवासी ग्राम कलम का कुआं तहसील लालपुर कोटा थाना रानपुर जिला कोटा प्रान्त राजस्थान
2. विजय सिंह पुत्र लख्खा जी निवासी ग्राम ढाबा दे तहसील रामजी मण्डी थाना मोडक जिला कोटा प्रान्त राजस्थान के

बरामदगी -

- 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315

पुलिस टीम का विवरण-

- नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह प्रभारी थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
- नि0 अपराध श्री अब्दुल कलाम थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
- उ0नि0 श्री अंकित यादव थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
- उ0नि0 श्री रंजीत यादव थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
- का0 832 प्रवीन कुमार थाना शिवली कानपुर देहात।
- का0 1137 रुप किशोर थाना शिवली कानपुर देहात।
- का0 1138 ब्रजमोहन थाना शिवली कानपुर देहात।
- का0 294 राजदीप थाना शिवली कानपुर देहात।
- का0 613 नीरज कुमार थाना शिवली कानपुर देहात।
- चालक राजेश कुमार थाना शिवली कानपुर देहात